



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020

पौष 10, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/1060-2020-4-154(जालौन)-2014

लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ10-557

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राज कुमार, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 62/2961/33-3-2020-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद जालौन की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/287-2015-4-154(जालौन)-2014, दिनांक 4 फरवरी, 2015 में विकास खण्ड कोंच की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करता हूँ।

सारिणी

जनपद जालौन

| क्र० सं० | पूर्व स्थिति | | | | क्र० सं० | संशोधित स्थिति | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------|------------------------------------|---------------------|--|--|
| | विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम | न्याय पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम | | विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | कोंच | बिलायां | धमसैनी | 1 धमसैनी | 1 | कोंच | धमसैनी | 1 धमसैनी | |
| | | | | 2 मबई एट | | | | 2 मबई एट | |
| 2 | कोंच | बिलायां | बैरागढ अमीटा | 1 बैरागढ अमीटा | 2 | कोंच | बैरागढ अमीटा | 1 बैरागढ अमीटा | |
| | | | | 2 सहपुरा | | | | 2 सहपुरा | |
| | | | | 3 भुवा गेर आबाद | | | | 3 भुवा गेर आबाद | |
| 3 | कोंच | बिलायां | बिरासनी | 1 बिरासनी | 3 | कोंच | बिरासनी | 1 बिरासनी | |
| 4 | कोंच | बिलायां | बिलाया | 1 बिलाया | 4 | कोंच | बिलाया | 1 बिलाया | |
| 5 | कोंच | बिलायां | शिवपुरी सतोह | 1 शिवपुरी सतोह | 5 | कोंच | शिवपुरी सतोह | 1 शिवपुरी सतोह | |
| | | | | 2 मुदरी गैर आबाद | | | | 2 मुदरी गैर आबाद | |
| 6 | कोंच | बिलायां | छिरावली | 1 छिरावली | 6 | कोंच | छिरावली | 1 छिरावली | |
| 7 | कोंच | बिलायां | हरदासपुर जखौली | 1 हरदासपुर जखौली | 7 | कोंच | हरदासपुर जखौली | 1 हरदासपुर जखौली | |
| 8 | कोंच | बिलायां | भरतनगर भरसूडा | 1 भरतनगर भरसूडा | 8 | कोंच | भरतनगर भरसूडा | 1 भरतनगर भरसूडा | |
| | | | | 2 रूखना | | | | 2 रूखना | |
| 9 | कोंच | बिलायां | जमसैल जमरोही खुर्द | 1 जमसैल जमरोही खुर्द | 9 | कोंच | जमसैल जमरोही खुर्द | 1 जमसैल जमरोही खुर्द | |
| | | | | 2 धुरट सौजना | | | | 2 धुरट सौजना | |
| | | | | 3 सला | | | | 3 सला | |
| 10 | कोंच | बिलायां | गुमावली | 1 गुमावली | 10 | कोंच | गुमावली | 1 गुमावली | |
| | | | | 2 केलरा | | | | 2 केलरा | |
| | | | | 3 हरदुवा | | | | 3 हरदुवा | |
| 11 | कोंच | किशुनपुरा | खैरी | 1 खैरी | 11 | कोंच | खैरी | 1 खैरी | |
| 12 | कोंच | किशुनपुरा | बहादुरपुर भेपता | 1 बहादुरपुर भेपता | 12 | कोंच | बहादुरपुर भेपता | 1 बहादुरपुर भेपता | |
| | | | | 2 कमतरी | | | | 2 कमतरी | |
| 13 | कोंच | किशुनपुरा | कौशलपुर | 1 कौशलपुर | 13 | कोंच | कौशलपुर | 1 कौशलपुर | |
| | | | | 2 मगरा | | | | 2 मगरा | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|----|------|-----------------------------|---|--------------------------|
| 14 | कोंच | किशुनपुरा | किशुनपुरा | 1 | किशुनपुरा | 14 | कोंच | किशुनपुरा | 1 | किशुनपुरा |
| 15 | कोंच | किशुनपुरा | पर्वतपुर पहाडगांव | 1 | पर्वतपुर पहाडगांव | 15 | कोंच | पर्वतपुर पहाडगांव | 1 | पर्वतपुर पहाडगांव |
| | | | | 2 | कुईया गैर आबाद | | | | 2 | कुईया गैर आबाद |
| 16 | कोंच | किशुनपुरा | सुनाया | 1 | सुनाया | 16 | कोंच | सुनाया | 1 | सुनाया |
| 17 | कोंच | किशुनपुरा | फुलैला | 1 | फुलैला | 17 | कोंच | फुलैला | 1 | फुलैला |
| 18 | कोंच | किशुनपुरा | नरी | 1 | नरी | 18 | कोंच | नरी | 1 | नरी |
| 19 | कोंच | पिण्डारी | ईगुई खुर्द | 1 | ईगुई खुर्द | 19 | कोंच | ईगुई खुर्द | 1 | ईगुई खुर्द |
| | | | | 2 | परैछा | | | | 2 | परैछा |
| | | | | 3 | हाजीपुर जनशून्य | | | | 3 | हाजीपुर जनशून्य |
| | | | | 4 | जनसुआ जनशून्य | | | | 4 | जनसुआ जनशून्य |
| | | | | 5 | व्यरलर जनशून्य | | | | 5 | व्यरलर जनशून्य |
| 20 | कोंच | पिण्डारी | ईगुई कला | 1 | ईगुई कला | 20 | कोंच | ईगुई कला | 1 | ईगुई कला |
| 21 | कोंच | पिण्डारी | बसोब | 1 | बसोब | 21 | कोंच | बसोब | 1 | बसोब |
| 22 | कोंच | पिण्डारी | पिण्डारी | 1 | पिण्डारी | 22 | कोंच | पिण्डारी | 1 | पिण्डारी |
| 23 | कोंच | पिण्डारी | पिरौना | 1 | पिरौना | 23 | कोंच | पिरौना | 1 | पिरौना |
| 24 | कोंच | पिण्डारी | श्रीनगर बिजदुवा खुर्द | 1 | श्रीनगर बिजदुवा खुर्द | 24 | कोंच | श्रीनगर बिजदुवा खुर्द | 1 | श्रीनगर बिजदुवा खुर्द |
| | | | | 2 | महतवानी | | | | 2 | महतवानी |
| | | | | 3 | सिंगार गैर आबाद | | | | 3 | सिंगार गैर आबाद |
| 25 | कोंच | पिण्डारी | चमारी | 1 | चमारी | 25 | कोंच | चमारी | 1 | चमारी |
| | | | | 2 | चौतरहाई | | | | 2 | चौतरहाई |
| | | | | 3 | हुनहुना | | | | 3 | हुनहुना |
| 26 | कोंच | पिण्डारी | चांदनी | 1 | चांदनी | 26 | कोंच | चांदनी | 1 | चांदनी |
| 27 | कोंच | पिण्डारी | चन्द्रगढ चन्दुरा | 1 | चन्द्रगढ चन्दुरा | 27 | कोंच | चन्द्रगढ चन्दुरा | 1 | चन्द्रगढ चन्दुरा |
| | | | | 2 | मुढिया जनशून्य | | | | 2 | मुढिया जनशून्य |
| 28 | कोंच | पिण्डारी | जमरोही कलां | 1 | जमरोही कलां | 28 | कोंच | जमरोही कलां | 1 | जमरोही कलां |
| | | | | 2 | बरबटा जनशून्य | | | | 2 | बरबटा जनशून्य |
| 29 | कोंच | पचीपुरी | कुदरा बुजुर्ग | 1 | कुदरा बुजुर्ग | 29 | कोंच | कुदरा बुजुर्ग | 1 | कुदरा बुजुर्ग |
| | | | | 2 | कुटरा खुर्द | | | | 2 | कुटरा खुर्द |
| | | | | 3 | चमरौआ बुजुर्ग | | | | 3 | चमरौआ बुजुर्ग |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|------|--------------|-------------------|---|----------------------|----|------|-------------------|---|----------------------|
| 30 | कोंच | पचीपुरी | कुदारी कोंच | 1 | कुदारी कोंच | 30 | कोंच | कुदारी कोंच | 1 | कुदारी कोंच |
| | | | | 2 | खावरी | | | | 2 | खावरी |
| | | | | 3 | बमरा जनशून्य | | | | 3 | बमरा जनशून्य |
| 31 | कोंच | पचीपुरी | हिंगुटा | 1 | हिंगुटा | 31 | कोंच | हिंगुटा | 1 | हिंगुटा |
| | | | | 2 | करयाबली | | | | 2 | करयाबली |
| 32 | कोंच | पचीपुरी | भडारी | 1 | भडारी | 32 | कोंच | भडारी | 1 | भडारी |
| 33 | कोंच | पचीपुरी | शंकरपुर पचीपुरी | 1 | शंकरपुर पचीपुरी | 33 | कोंच | शंकरपुर पचीपुरी | 1 | शंकरपुर पचीपुरी |
| | | | | 2 | रतनपुर | | | | 2 | रतनपुर |
| | | | | 3 | गोबर्धनपुरा गैर आबाद | | | | 3 | गोबर्धनपुरा गैर आबाद |
| 34 | कोंच | पचीपुरी | सामी | 1 | सामी | 34 | कोंच | सामी | 1 | सामी |
| 35 | कोंच | पचीपुरी | असूपुरा | 1 | असूपुरा | 35 | कोंच | असूपुरा | 1 | असूपुरा |
| | | | | 2 | इटौरा | | | | 2 | इटौरा |
| | | | | 3 | दबकाई | | | | 3 | दबकाई |
| | | | | 4 | भेदपुरा जनशून्य | | | | 4 | भेदपुरा जनशून्य |
| 36 | कोंच | पचीपुरी | गेदौली | 1 | गेदौली | 36 | कोंच | गेदौली | 1 | गेदौली |
| | | | | 2 | बाबूपुरा | | | | 2 | बाबूपुरा |
| 37 | कोंच | पचीपुरा कलां | बस्ती | 1 | बस्ती | 37 | कोंच | बस्ती | 1 | बस्ती |
| | | | | 2 | टोपोर | | | | 2 | टोपोर |
| 38 | कोंच | पचीपुरा कलां | मुहम्मद कुंवरपुरा | 1 | मुहम्मद कुंवरपुरा | 38 | कोंच | मुहम्मद कुंवरपुरा | 1 | मुहम्मद कुंवरपुरा |
| | | | | 2 | मुहम्मदा गैर आबाद | | | | 2 | मुहम्मदा गैर आबाद |
| 39 | कोंच | पचीपुरा कलां | बिजबाहा अटा | 1 | बिजबाहा अटा | 39 | कोंच | बिजबाहा अटा | 1 | बिजबाहा अटा |
| | | | | 2 | रामपुर सनेता | | | | 2 | रामपुर सनेता |
| 40 | कोंच | पचीपुरा कलां | भरतपुर भदेवरा | 1 | भरतपुर भदेवरा | 40 | कोंच | भरतपुर भदेवरा | 1 | भरतपुर भदेवरा |
| | | | | 2 | चचेडा | | | | 2 | चचेडा |
| | | | | 3 | नगेपुरा | | | | 3 | नगेपुरा |
| 41 | कोंच | पचीपुरा कलां | पलावत पचीपुराकलां | 1 | पलावत पचीपुराकलां | 41 | कोंच | पलावत पचीपुराकलां | 1 | पलावत पचीपुराकलां |
| | | | | 2 | गुरावती गुरुनानकनगर | | | | 2 | गुरावती गुरुनानकनगर |
| | | | | 3 | अलाबलपुर गैर आबाद | | | | 3 | अलाबलपुर गैर आबाद |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|------|--------------|-----------------|---|-------------------|----|------|-----------------|---|-------------------|
| 42 | कोंच | पचीपुरा कलां | छानी | 1 | छानी | 42 | कोंच | छानी | 1 | छानी |
| 43 | कोंच | पचीपुरा कलां | चमरसेना | 1 | चमरसेना | 43 | कोंच | चमरसेना | 1 | चमरसेना |
| 44 | कोंच | पचीपुरा कलां | गोरा करनपुर | 1 | गोरा करनपुर | 44 | कोंच | गोरा करनपुर | 1 | गोरा करनपुर |
| 45 | कोंच | पचीपुरा कलां | लोना कोंच | 1 | लोना कोंच | 45 | कोंच | लोना कोंच | 1 | लोना कोंच |
| | | | | 2 | सिकरी कोंच | | | | 2 | सिकरी कोंच |
| 46 | कोंच | पनयारा | घुसिया | 1 | घुसिया | 46 | कोंच | घुसिया | 1 | घुसिया |
| | | | | 2 | महन्तनगर | | | | 2 | महन्तनगर |
| 47 | कोंच | पनयारा | बहादुरपुर भदारी | 1 | बहादुरपुर भदारी | 47 | कोंच | बहादुरपुर भदारी | 1 | बहादुरपुर भदारी |
| | | | | 2 | बरोदा खुर्द | | | | 2 | बरोदा खुर्द |
| 48 | कोंच | पनयारा | मौथी कैथी | 1 | मौथी कैथी | 48 | कोंच | मौथी कैथी | 1 | मौथी कैथी |
| | | | | 2 | मनोहारी | | | | 2 | मनोहारी |
| | | | | 3 | बरसेसी | | | | 3 | बरसेसी |
| 49 | कोंच | पनयारा | बिरगुवा बुजुर्ग | 1 | बिरगुवा बुजुर्ग | 49 | कोंच | बिरगुवा बुजुर्ग | 1 | बिरगुवा बुजुर्ग |
| 50 | कोंच | पनयारा | सिमिरिया | 1 | सिमिरिया | 50 | कोंच | सिमिरिया | 1 | सिमिरिया |
| 51 | कोंच | पनयारा | दिरसेती दिरावटी | 1 | दिरसेती दिरावटी | 51 | कोंच | दिरसेती दिरावटी | 1 | दिरसेती दिरावटी |
| | | | | 2 | चक दिरावटी गैर | | | | 2 | चक दिरावटी गैर |
| 52 | कोंच | पनयारा | पडरी | 1 | पडरी | 52 | कोंच | पडरी | 1 | पडरी |
| 53 | कोंच | पनयारा | पनयारा | 1 | पनयारा | 53 | कोंच | पनयारा | 1 | पनयारा |
| 54 | कोंच | पनयारा | ताहरपुरा | 1 | ताहरपुरा | 54 | कोंच | ताहरपुरा | 1 | ताहरपुरा |
| 55 | कोंच | पनयारा | अण्डा | 1 | अण्डा | 55 | कोंच | अण्डा | 1 | अण्डा |
| 56 | कोंच | चमेड़ | बरोदाकलां | 1 | बरोदाकलां | 56 | कोंच | बरोदाकलां | 1 | बरोदाकलां |
| 57 | कोंच | चमेड़ | बोहरा | 1 | बोहरा | 57 | कोंच | बोहरा | 1 | बोहरा |
| | | | | 2 | घमूरी | | | | 2 | घमूरी |
| | | | | 3 | पठा | | | | 3 | पठा |
| | | | | 4 | मोहनपुरा गैर आबाद | | | | 4 | मोहनपुरा गैर आबाद |
| 58 | कोंच | चमेड़ | कूढा | 1 | कूढा | 58 | कोंच | कूढा | 1 | कूढा |
| 59 | कोंच | चमेड़ | परैथा | 1 | परैथा | 59 | कोंच | परैथा | 1 | परैथा |
| | | | | 2 | दाढी | | | | 2 | दाढी |
| | | | | 3 | खेरा दाढी गेर | | | | 3 | खेरा दाढी गेर |
| 60 | कोंच | चमेड़ | उदयपुर इमलौरी | 1 | उदयपुर इमलौरी | 60 | कोंच | उदयपुर इमलौरी | 1 | उदयपुर इमलौरी |
| | | | | 2 | सेता | | | | 2 | सेता |
| | | | | 3 | ऊमरी | | | | 3 | ऊमरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
|----|------|-------|--------------------|---|----------------------|----|------|--------------------|---|---|
| 61 | कोंच | चमेड़ | चम्पतपुरा चमेड़ | 1 | चम्पतपुरा चमेड़ | 61 | कोंच | चम्पतपुरा चमेड़ | 1 | चम्पतपुरा चमेड़ |
| | | | | 2 | चमडा ठाकुरपुर | | | | 2 | चमडा ठाकुरपुर |
| | | | | 3 | गिरवरनगर | | | | 3 | गिरवरनगर |
| 62 | कोंच | चमेड़ | जुझारपुरा | 1 | जुझारपुरा | 62 | कोंच | जुझारपुरा | 1 | जुझारपुरा |
| | | | | 2 | आरजीलेन | | | | | (प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना सं० 1850 9-6- 2019-06सी०वि०-2005, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पालिका परिषद कोंच में सम्मिलित। |
| | | | | 3 | बडी दोहर | | | | 2 | बडी दोहर |
| | | | | 4 | झला | | | | 3 | झला |
| | | | | 5 | तुरसमपुरा जनशून्य | | | | 4 | तुरसमपुरा जनशून्य |

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/287-2015-4-154(जालौन)-2014, दिनांक 04 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
राज कुमार,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 696 राजपत्र-2021-(1371) 599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 56 सा० पंचायतीराज-2021-(1372) 132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

696 RPH Jalaur data 8d Pan raj folder